



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2007 (वैशाख 29, 1929)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2007 (VAISAKHA 29, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2007

सं. ए-32013/5/2005-प्रशा.-II—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, सं.लो.से.आ. के कार्यालय में श्री कुलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक (परीक्षा सुधार) को आयोग कार्यालय में वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय) के पद पर तीन वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से, या अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान श्री कुलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी और विश्लेषण) का वेतन समय-समय पर यथा संशोधित का. एवं प्र. वि. के का. ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II) दिनांक 05.01.1994 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/87/ओ-20023/15/83--अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ठाकुर दास ने 31.01.2007 (अपराह) से उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 4 मई 2007

सं. डीपी/कार्मिक-2/2007/1398/ए-34012/1/2002--श्री अखिलेश कुमार ने अधिर्वर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.03.2007 (अपराह) से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/कार्मिक-2/2007/1398/ए-34012/7/2005--श्रीमती के. सरस्वती, वैयक्तिक सहायक ने 02.04.2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति पर निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.-1/2007/92/3/24/2007/पर्स.-1--निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री फ्रांसिस एंडराडे, अपराध सहायक को दिनांक 11.04.2007 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में नियुक्त किया है।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. डीपी/पर्स.-1/2007/88/3/14/2000--श्री किरण डी. जाधव, भा. पु. सेवा (उत्तर प्रदेश : 1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं 07.04.2007 (अपराह्न) से, प्रत्यावर्तन पर, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई हैं।

अनुराग
पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 मई 2007

सं. 16/7/2001-प्रशा.(एफ.एस.)--राष्ट्रपति, श्री ब्रिजेन्द्र बदनिया, को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय, चण्डीगढ़ में सहायक निदेशक (भौतिकी) के पद पर पदोन्नति पर दिनांक 30.03.2007 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में नियुक्त करते हैं।

डॉ. एम. एस. राव
निदेशक (एफ.एस.)

सं. 11/30/2004-प्रशा.(एफ.एस.)--निदेशक (एफ.एस.) व मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय, निम्नलिखित को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पदोन्नति पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में प्रत्येक के सामने दी गई तिथि से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री ए. एस. दत्ता	के.न्या. विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता (रसायन प्रभाग)	02.04.2007 (अपराह्न)

1	2	3	4
2.	श्री पी. सुधाकर	के.न्या. विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद (रसायन प्रभाग)	05.04.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री बी. मुखोपाध्याय	के.न्या. विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता (रसायन प्रभाग)	02.04.2007 (अपराह्न)

डॉ. एम. एस. राव
निदेशक (एफ.एस.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 अप्रैल 2007

सं. ओ-दो-3742/07/सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर अर्जुन कुमार मंडल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेन्ट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में अस्थायी रूप से दिनांक 18.04.2007 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 151 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. ई-16015/प्रतिनियुक्ति/07/कार्मिक-2/218--प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्रीमती तपस्या ओबराय नायर, सहायक कमाण्डेन्ट, के.ओ.सुब ने दिनांक 23.04.2007 (पूर्वाह्न) से प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव (Additional Private Secretary) रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में पदभार संभाल लिया है।

2. श्रीमती तपस्या ओबराय नायर, सहायक कमाण्डेन्ट की अतिरिक्त निजी सचिव पद पर नियुक्ति प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ (Personal Staff) के रूप में की गई है तथा नियुक्ति की अवधि प्रसादपर्यन्त और प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होगी।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 4 मई 2007

सं. ई-15014/1/2007/कार्मिक-II/1222--सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमाण्डेन्टों के

सम्बन्ध में परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंक	स.क. के पद पर पदोन्नति	परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की तारीख	यूनिट
सर्वश्री					
1.	कश्मीर सिंह	स.क./कार्य	17.03.2003	16.03.2007 (बड़ी अवधि)	पी.टी.एस. पनकी (अब एन.एल.सी. नवेली)
2.	जी. एन. मॉडल	स.क./क.प्र.अ.	20.09.2004	19.09.2006	सातवीं आरक्षित वाहिनी, जयपुर
3.	एन. किंडो	स.क./क.प्र.अ.	28.01.2005	27.01.2007	पू.क्ष. मुख्यालय पटना

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय--प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 20 अप्रैल 2007

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-1/22--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, के श्री समिरन दास-I, व.ले.प.अ., श्री प्रनाब कुमार विश्वास, व.ले.प.अ. और श्री अमरेन्द्र मजुमदार, ले.प.अ. ने दिनांक 31.03.2007 (अपराह्न) से प्रभावी वार्षिक्य पर सेवानिवृत्ति ग्रहण की तथा श्री हिरानमय गुहा, व.ले.प.अ. ने दिनांक 01.03.2007 (अपराह्न) को स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बि. के. मुखर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार सिविल लेखापरीक्षा का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद-500004, दिनांक 2007

प्रधान महालेखाकार, निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को उनके नाम के आगे दर्शाए गए नं./तिथि से रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर लेखा परीक्षा अधिकारियों के रूप में स्थापना करने हेतु पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	कार्यालय आदेश नं./तिथि	कार्यभार संभालने की तिथि
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कुमारी			
1.	सैयद अकबर	76/30.06.2006	03.07.2006

1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कुमारी			
2.	वी. के. के. चंद्र बाबू	76/30.06.2006	03.07.2006
3.	के. सौभाग्य लक्ष्मी	-वही-	-वही-
4.	पी. एल. एन. सर्मा	106/31.07.2006	01.08.2006
5.	ए. बी. रामा राव-II	130/31.08.2006	31.08.2006
6.	के. श्रवण कुमार	132/31.08.2006	01.09.2006
7.	के. भारती	-वही-	-वही-
8.	एम. पोन डेनियल	-वही-	-वही-
9.	बी. वी. सत्यनारायण राव	-वही-	-वही-
10.	एम. उमा	149/29.09.2006	04.10.2006
11.	एन. रामास्वामी	-वही-	-वही-
12.	ए. वेंकटेश्वर राव	-वही-	-वही-
13.	एस. नागाराजू	-वही-	-वही-
14.	के. बाबू राव-II	166/31.10.2006	01.11.2006
15.	जी. जे. श्रीनिवासा राव	193/30.11.2006	04.12.2006
16.	के. जयाकर बाबू	206/29.12.2006	02.01.2007
17.	डी. सागर	-वही-	-वही-
18.	बी. जयाकर	-वही-	-वही-
19.	वी. अन्नपूर्णा	-वही-	-वही-
20.	चौ. पाल विजय कुमार	-वही-	-वही-
21.	डी. सुरेन्द्रनाथ	-वही-	-वही-
22.	पी. वी. चन्द्रसेखर	227/11.01.2007	11.01.2007
23.	एम. नरसिम्हा मूर्ति	231/31.01.2007	01.02.2007
24.	इकबाल शरीफ	-वही-	-वही-
25.	जी. गंगा प्रसाद	-वही-	-वही-
26.	चौ. जवाहर लाल	-वही-	02.02.2007
27.	के. किरण विद्या सागर	256/28.02.2007	01.03.2007
28.	वी. वेंकटेश्वर राव	-वही-	-वही-
29.	गीता वासूदेवन	-वही-	-वही-
30.	के. शारदा देवी	-वही-	-वही-
31.	बी. बी. वरा प्रसाद	278/30.03.2007	02.04.2007

उपर्युक्त पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावों को हानि न पहुंचाते हुए तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण आदि में यदि कोई याचिका लम्बित हो तो उसके परिणामों पर होगी।

वेतन नियतन के लिए वह अपना विकल्प भारत सरकार के ज्ञापन सं. एफ-7/1/80-स्था./पी.-1 दिनांक 26.09.1981 तथा एफ-13/26/82-स्था. (पी.1) दिनांक 08.02.1983 की शर्तों के अनुसार एक माह के भीतर दें।

सी. शैलजा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार का कार्यालय (ले. व ह.), कर्नाटका

बैंगलूर-560 001, दिनांक 1 मई 2007

सं. ईएस-1/ए8/एओ/2007-08/34--महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्रीमती पद्मजा ए., सहायक लेखा अधिकारी (यूनिक कोड सं. 209 0067) को पूर्णतया अस्थाई रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 01.05.2007 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफआर 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. का.स्था.(रोकड़)/पेन/10-2/2007-2008--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख	अभ्युक्तियां
1.	श्रीमती सूसम्मा कुरुविला उप महालेखाकार	31.03.2007	अधिवार्षिकी
2.	श्री के. गंगाधरन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/वाणि.	31.03.2007	अधिवार्षिकी

दिवाकरन पिल्लै

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

सं. ए-19011/296/07-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री आर. एन. मेश्राम, अधीक्षण खनिज अर्थशास्त्री

(आसूचना) की भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 13.04.2007 (अपराह्न) से मुख्य खनिज अर्थशास्त्री के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2007

सं. 10/1/2000-एम.--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. दोरजी, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर 18 अप्रैल, 2007 को विश्वदाय दिवस समारोह के अवसर पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सी. दोरजी
निदेशक (स्मारक)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001, दिनांक 27 अप्रैल 2007

सं. 2-6/2006-प्रशा.-I--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने निम्नलिखित एस.एस.ए.-II (रसायन) को प्रोन्नति के आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई तारीख से अगले आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर इस निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (रसायन) के पद पर नियुक्त किया है :-

क्रमांक	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एम. चिदम्बरम	28.02.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पी. के. अंकोलेकर	05.03.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री डी. के. मित्तल	05.03.2007 (पूर्वाह्न)
4.	श्री के. वी. सिंह	27.02.2007 (पूर्वाह्न)
5.	श्री आर. पी. भटनागर	05.03.2007 (पूर्वाह्न)

मशरि अहमद
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-110012, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. 5-325/07-स्थापना--श्री प्रेमनाथ गाबा, विस्तार अधिकारी, विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, को अधिवर्षिता

की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है।

एस. के. बिश्वास
उप निदेशक (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. पीडी/7(18)/2006/भर्ती-IV/एसओ(डी)/45429--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इन्जीनियर ग्रेड डी के पद पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से, श्रीमती उमा शरद भारतीय, क्रम संख्या 68, श्री योगेश कुमार गुप्ता, क्रम संख्या 81 एवं श्री देबाशीष दास क्रम संख्या 91 जिनकी नियुक्ति तिथियां क्रमशः 16 अप्रैल, 2007, 11 अगस्त, 2006 एवं 8 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से है, को छोड़कर, आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री मोहनदास करमचान्द प्रधान	एसओ/सी
2.	श्री रमेश पतिवाडा	एसओ/सी
3.	श्री एलुमलै सन्मुकम	एसओ/सी
4.	श्रीमती रम्या देवी पेरिया मना शंकरन नम्पूतिरी	एसओ/सी
5.	श्री ललित कुमार	एसओ/सी
6.	डॉ. अनूप केलकर	एसओ/सी
7.	श्री बी. सुरेन्द्र	एसओ/सी
8.	श्री कौशिक साधूखान	एसओ/सी
9.	श्री राज कुमार	एसओ/सी
10.	श्री आलोक कुमार सक्सेना	एसओ/सी
11.	श्री अभिजीत रविन्द्र टिल्लू	एसओ/सी
12.	श्री सतेन्द्र कुमार	एसओ/सी
13.	श्री नवीन कुमार	एसओ/सी
14.	श्री दिबाकर गोस्वामी	एसओ/सी
15.	श्री जितेश सिंह राठी	एसओ/सी
16.	श्री सौम्यदित्य मूला	एसओ/सी
17.	कुमारी सोमाली फणी	एसओ/सी
18.	श्री ब्रजपाल	एसओ/सी
19.	श्री जितेन्द्र वीर सिंह	एसओ/सी
20.	श्री गौरव वाष्णोय	एसओ/सी

1	2	3
21.	श्री बालाजी प्रसाद मंडल	एसओ/सी
22.	श्री धीरज जैन	एसओ/सी
23.	श्री कोस्तव भट्टाचार्य	एसओ/सी
24.	श्री आलोक कुमार	एसओ/सी
25.	श्री अविक सिल	एसओ/सी
26.	श्री कौशिक दत्त	एसओ/सी
27.	श्री पार्थ प्रतिम धर	एसओ/सी
28.	श्री संनकरन सुन्दर राजन	एसओ/सी
29.	श्री विपिन गुप्ता	एसओ/सी
30.	श्री हनैद जोहेर फानी	एसओ/सी
31.	श्री चेन्न केशवुलु गुर्रम	एसओ/सी
32.	श्री राहा अभिजीत	एसओ/सी
33.	श्री वल्लीकालायल सुधाकरण सोमराजन	एसओ/सी
34.	श्री खुणे शहाजी भानुदास	एसओ/सी
35.	श्री चन्द्रभूषण कोठरी	एसओ/सी
36.	कुमारी चक्रवर्ती अदिति	एसओ/सी
37.	श्री बरेन्द्र कुमार राणा	एसओ/सी
38.	श्री चिन्नाईसकी शन्मुगवेलू	एसओ/सी
39.	श्री राज किसोर लैंका	एसओ/सी
40.	कुमारी मेनका टेवानी	एसओ/सी
41.	श्री केशव बवेजा	एसओ/सी
42.	श्री प्रवीणकुमार सुगिशेट्टि	एसओ/सी
43.	श्री राजित राम	एसओ/सी
44.	कुमारी संगिता धारा	एसओ/सी
45.	श्री मनोज कुमार शर्मा	एसओ/सी
46.	श्री एस. संजय कुमार	एसओ/सी
47.	श्रीमती मीरा संजय केसकर	एसओ/सी
48.	श्री गज्जर निकुंज भरत	एसओ/सी
49.	श्री स्वपन कुमार सेन	एसओ/सी
50.	श्री ए. अरुल आनंता कुमार	एसओ/सी
51.	श्रीमती मुप्पाला शोभिता राव	एसओ/सी
52.	श्री संदीप पांडुरंग पाटील	एसओ/सी
53.	श्रीमती ज्योती झा	एसओ/सी

1	2	3	1	2	3
54.	श्रीमती आरती सचिन म्हात्रे	एसओ/सी	87.	श्री राजसेकरन सिंगादुरेई	एसओ/सी
55.	श्री एस. वेंकटरामन	एसओ/सी	88.	श्री सुभाशिश पाहाडी	एसओ/सी
56.	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	एसओ/सी	89.	श्रीमती मितुन दे	एसओ/सी
57.	श्री हेमंत कुमार पाटनी	एसओ/सी	90.	श्री चन्द्रभान सिंह	एसओ/सी
58.	श्रीमती मिनल येसूराजा नाडार	एसओ/सी	91.	श्री देबाशीष दास	एसओ/सी
59.	श्री ई.डी.ई. श्रीनिवास राव	एसओ/सी	92.	मिस एस. मंजु भार्गवी	एसओ/सी
60.	श्री कांचन मजुमदार	एसओ/सी	93.	श्री राजन कुमार सिंह	एसओ/सी
61.	श्री नटराजन शिवराजन विवेकानंदन	एसओ/सी	94.	श्री राम चन्द्रम	एसओ/सी
62.	श्री धामिशेट्टी सत्य साई श्रीनिवासु	एसओ/सी	95.	श्री अरूप कुमार पाठक	एसओ/सी
63.	श्री अजय कुमार	एसओ/सी	96.	श्री अमित कुमार	एसओ/सी
64.	श्री देवरंजन दास	एसओ/सी	97.	कुमारी छवि अग्रवाल	एसओ/सी
65.	श्री नागराज अलंगि	एसओ/सी	98.	श्रीमती राजेश्वरी बालसुब्रमण्यन	एसओ/सी
66.	श्री चिनागंधम राजेश	एसओ/सी	99.	श्री विमल पारखिया	एसओ/सी
67.	श्री शीनिबास नायक	एसओ/सी	100.	श्री विनय प्रकाश पाण्डेय	एसओ/सी
68.	श्रीमती उमा शरद भारतीय	एसओ/सी	101.	श्री विवेक शील मित्तल	एसओ/सी
69.	मिस प्रीति चौधरी	एसओ/सी	102.	श्री आलोक कुमार विश्णोई	एसओ/सी
70.	श्री पार्थ सारथि माइति	एसओ/सी	103.	श्री अर्नब दासगुप्ता	एसओ/सी
71.	श्री राम दयाल	एसओ/सी	104.	श्री सत्यजित दे	एसओ/सी
72.	श्रीमती कोटा स्वाति	एसओ/सी	105.	श्री सुबल चन्द्र हानडा	एसओ/सी
73.	डॉ. (श्रीमती) इन्द्राणी हलदर	एसओ/सी	106.	श्री योगेश कुमार उन्नेती	एसओ/सी
74.	डॉ. राजेश किशन झा	एसओ/सी	107.	श्री के. रवी	एसओ/सी
75.	श्री अभिषेक मुखार्जी	एसओ/सी	108.	श्री कुमार राजा मच्चा	एसओ/सी
76.	श्री तम्मना श्रीरामा चंद्र मुर्ती	एसओ/सी	109.	श्री मधुसूदन	एसओ/सी
77.	श्री अमित प्रकाश श्रीवास्तव	एसओ/सी	110.	श्री मनोज कुमार	एसओ/सी
78.	श्री सुधीर सिंह	एसओ/सी	111.	श्री रितेषकुमार अजीतराय जोशी	एसओ/सी
79.	श्री सुभेन्दु मण्डल	एसओ/सी	112.	श्री सुकुमार लायेक	एसओ/सी
80.	श्री रामलाल	एसओ/सी	113.	श्री राजीव दास	एसओ/सी
81.	श्री योगेश कुमार गुप्ता	एसओ/सी	114.	कुमारी अर्गला श्रीवास्तवा	एसओ/सी
82.	श्रीमती सपना पदमकुमार	एसओ/सी	115.	श्री राजकुमार	एसए/ई
83.	श्री गंगाधर हुद्यार	एसओ/सी	116.	श्री शिवरामकृष्णन करता रामभद्रन	एसओ/सी
84.	श्री कारखानीश प्रसाद प्रदीप	एसओ/सी	117.	श्री आकांक्षु शर्मा	एसओ/सी
85.	श्री लाड शशीकान्त चन्द्रकान्त	एसओ/सी	118.	श्री कोन्ट्रिक्टर अंकुर दिपकभाई	एसओ/सी
86.	श्री मित्तल शाह	एसओ/सी	119.	श्री संतोष	एसओ/सी

1	2	3
120.	श्री सुभाशिष गुइन	एसओ/सी
121.	श्री तंगमणि इन्बनादन	एसओ/सी
122.	श्री सचिन गजानन म्हात्रे	एसओ/सी
123.	श्री सुधीर कुमार	एसओ/सी
124.	श्रीमती मौसुमी सेनगुप्त मित्र	एसओ/सी
125.	श्री प्रवीन कुमार मिश्र	एसओ/सी
126.	श्री पिजु वर्गीस	एसओ/सी
127.	कुमारी जयश्री बिस्वाल	एसओ/सी
128.	श्री मन मोहन कौल	एसओ/सी
129.	कुमारी अनिता गुप्ता	एसओ/सी
130.	श्री राज बहादुर टोकस	एसओ/सी
131.	श्री अनिल जैन	एसओ/सी
132.	कुमारी चन्द्रानी भट्टाचार्य	एसओ/सी
133.	श्री कुलदीप शर्मा	एसओ/सी
134.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	एसओ/सी
135.	श्री शंकर प्रसाद कोईरी	एसओ/सी
136.	श्री आर. अनबझगन	एसओ/सी
137.	श्री राजकुमार	एसओ/सी
138.	श्री शुभंकर मान्ना	एसओ/सी
139.	श्री मुर्तजा मोनी हीता	एसओ/सी
140.	श्रीमती दीपा किशोर भांबुरे	एसओ/सी
141.	श्री निर्मल सूर	एसओ/सी
142.	श्रीमती ज्योती दीवान	एसओ/सी
143.	श्री काशी विश्वेश्वर राव एन.	एसओ/सी
144.	श्री महावीर प्रसाद उपाध्याय	एसओ/सी
145.	श्री मालुसरे मंगेश मारुती	एसओ/सी
146.	श्री मनीष कुमार	एसओ/सी
		पी. वेणुगोपालन नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 26 अप्रैल 2007

सं. 22/3(2)/2007-सीसीएस/14--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. एस. शानभाग, सहायक भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--

10,500/-), केन्द्रीय भंडार यूनिट, क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 04.04.2007 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में भंडार अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/06/29--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'डी' के वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता डॉ. वी. बी. कडवाड को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/06/30--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एफ' के वैज्ञानिक सहायक श्री एस. के. मिश्रा को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/06/31--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी', के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
1.	श्री एस. बी. कांबले
2.	श्री ए. वी. वैकिटरामन
3.	श्री आर. बी. कुरमि
4.	श्री जी. एल. विसपुते
5.	श्री डी. बी. कालगुटकर

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/06/32--महामहिम राष्ट्रपति जी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एसबी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी', के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
1.	श्री पी. के. जोतिष
2.	श्री ए. तुलसीदासन

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

नवी मुम्बई-400705, दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. ब्रिट/9/17/अगस्त/06/33--मुख्य कार्यकारी, ब्रिट, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'सी' के वैज्ञानिक सहायक श्री बी. के. तिवारी को दिनांक 1 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपये 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एसबी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 28 अप्रैल 2007

सं. ब्रिट/9/11/2007/38--मुख्य कार्यकारी, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुम्बई, श्री रविन्द्र दत्तात्रेय मोरे, सहायक लेखाकार, निसेसंप्रनि (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) को दिनांक 27 अप्रैल 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

ओ. भारतन
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. भापाबो/भर्ती/1(67)/2007/530--राष्ट्रपति, श्रीमती प्रीती असीम सरूप को दिनांक अप्रैल 20, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/डी (सिविल) के पद पर भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), मुम्बई में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन
प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. नाईस/प्रशा./पै./03/05/1178--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग के समूह 'ए' से संबंधित निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को उनके पद पर मूल हैसियत में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	का.कू.	नाम	पुष्टि पद	पुष्टि की तारीख
		सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी		
1.	6297	एम.बी.एस.आर. रवि कान्त	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
2.	6298	जी. श्रीनिवास कुमार	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
3.	6299	टी. टी. श्रीचंदन	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
4.	6300	लिङ्गो कर्ज	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
5.	6301	महक रंग	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
6.	6302	मुदित अग्रवाल	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
7.	6303	पी. बी. चौधरी	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006
8.	6304	जोकिन कोस्का	वैज्ञा. अधि./सी	01.10.2006

के. एस. मूर्ति
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 20 अप्रैल 2007

सं. पखनि-8/1/2006-भर्ती/164--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा श्री एन. एस. काल्वे, सहायक लेखाकार (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नागपुर को दिनांक 30.10.2006 (पूर्वाह्न) से 22.12.2006 तक इसी निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 अप्रैल 2007

सं. पखनि-4/3/2006-भर्ती/201--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इन्जीनियर को दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 10,000-325-15,200/-

के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी-डी के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड/वेतनमान	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा वैज्ञा. अधि.-सी	वैज्ञा. अधि.-डी रु. 10,000-325-15,200	ग्रुप-बी (तकनीकी)		13.12.2004

डॉ. अंजन चाकी
निदेशक

सं. पखनि-4/2/2006-भर्ती/200--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों को दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी-एफ के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एस. एन. सैनी वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञा.)		01.08.2005
2.	श्री आर. बी. जैन वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञा.)		01.08.2005

डॉ. अंजन चाकी
निदेशक

हैदराबाद-500016, दिनांक 3 मई 2007

सं. पखनि-16/1/2002-भर्ती/219--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री सोना राम पूर्ति, सहायक सुरक्षा अधिकारी-‘ए’ (वेतनमान रु. 5,500-175-9,000/-) को तारीख 04.12.2006 से 02.03.2007 तक इसी निदेशालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

सं. पखनि-16/1/2002-भर्ती/220--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एन. रवीन्द्रन, सहायक सुरक्षा अधिकारी-‘ए’ (वेतनमान रु. 5,500-150-8,000/-), भारी पानी संयंत्र, तुतीकोरिन को तारीख 26.03.2007-(पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक इसी निदेशालय में रु. 6,500-200-

10,500/- के वेतनमान में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

सं. पखनि-8/1/2006-भर्ती/221--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री एन. मुरली, वरिष्ठ लिपिक (वेतनमान रु. 5,000-150-8,000/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 21.03.2007 (पूर्वाह्न) से 20.04.2007 तक इसी निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/-) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2007

सं. ए-20012/42/71-स्था.-2--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री एस. एल. बाली, अनुभाग अधिकारी, को दिनांक 30.04.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

सुशील टी. विलियम्स
प्रशासन उप निदेशक

दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. ए-19011/4/1992-स्था.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री लछ्मन दास, निदेशक उड़नयोग्यता को दिनांक 30.04.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

सुशील टी. विलियम्स
प्रशासन उप निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2007

सं. 2005/ई(ओ)-II/5/40--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) जो कि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसायटी है, में प्रबन्ध निदेशक के पद के लिए एतद्वारा निम्नलिखित भर्ती नियम बनाए जाते हैं :

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(क) ये नियम “प्रबन्ध निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) के पद के लिए भर्ती नियम” कहलाएंगे,

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) पद की संख्या :

पद की संख्या एक होगी।

(3) प्रबन्ध निदेशक/क्रिस का वेतनमान :

24,050-650-26,000/- रु. (केन्द्रीय महंगाई भत्ता सहित)

(4) भर्ती की विधि :

(क) प्रबन्ध निदेशक/क्रिस का पद चयन प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा।

(ख) जब भी प्रबन्ध निदेशक/क्रिस का पद भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, रेल मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति से एक खोज एवं चयन समिति का गठन करेगा। खोज एवं चयन समिति में रेलवे बोर्ड का एक सदस्य (जैसे सदस्य यातायात), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उपयुक्त ग्रेड का एक प्रतिनिधि जैसे सचिव स्तर और रेलवे से इतर संगत क्षेत्र उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कम से कम एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी अनिवार्य रूप में शामिल होगा। समिति प्राथमिकता का क्रम दर्शाते हुए दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी। रेल मंत्रालय में प्रबन्ध निदेशक/क्रिस के पद पर नियुक्ति किए जाने से पूर्व खोज एवं चयन समिति की सिफारिश को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ग) खोज एवं चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। यदि एक वर्ष के भीतर पैनल में से कोई नियुक्ति नहीं की जाती है, तो नया पैनल बनाने के लिए एक नई समिति का गठन किया जाएगा। ऐसी समिति में पहले के पैनल में संस्तुत व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

(5) पात्रता

प्रबन्ध निदेशक/क्रिस का पद केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते सहित उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) (22,400--24,500/- रु.) में कार्य कर रहे भारतीय रेल यातायात सेवा के पात्र रेलवे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर भरा जाएगा। भूतपूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)/भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी जो कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) में कार्यकारी (औद्योगिक महंगाई भत्ते सहित 20,500-500-26,500/- रु. के ग्रेड में) के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रबन्ध निदेशक/क्रिस की रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख को जिन्हें उस पद का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है, उन्हें आंतरिक उम्मीदवार माना जाएगा और प्रबन्ध निदेशक/क्रिस के पद के लिए वे केवल आमेलन आधार पर ही पात्र माने जाएंगे।

(6) नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष या अधिकारी की आयु 60 वर्ष पूरा होने तक या अधिवर्षिता तक, जो भी पहले हो, होगी।

(7) आयु सीमा

(i) न्यूनतम 55 वर्ष

(ii) प्रबन्ध निदेशक/क्रिस की रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) में कार्य कर रहे आंतरिक उम्मीदवारों के लिए 58 वर्ष से अधिक नहीं तथा अन्य के लिए 57 वर्ष के अधिक नहीं होगी।

(iii) अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है।

(8) अर्हता :

अधिकारी भारतीय रेल यातायात सेवा (आई आर टी एस) के उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एच ए जी) (22,400--24,500/- रु.) में होना चाहिए। भूतपूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस ए जी)/आई आर टी एस अधिकारी (18,400-500-22,400/- रु. का वेतनमान) जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (और महंगाई भत्ते सहित 20,500--26,500/- रु. के ग्रेड में) में आमेलित हो गए हैं और जिन्हें पी एस यू के पद का तीन वर्ष का अनुभव है, भी अर्हक होंगे। किसी अधिकारी द्वारा विभिन्न नियुक्तियों विशेषकर चुनौतीपूर्ण पदों पर प्राप्त किए गए अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन सहित उसके तकनीकी और व्यावसायिक प्रदर्शन को चयन प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाएगा।

(9) कार्याविधि का विस्तार :

प्रबन्ध निदेशक/क्रिस की कार्याविधि के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करने का प्राधिकार मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए सी सी) के पास होगा।

(10) अतिरिक्त कार्यभार सौंपना :

प्रबन्ध निदेशक/क्रिस को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्राधिकार मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए सी सी) के पास होगा।

(11) अनुशासनिक नियम :

प्रतिनियुक्ति शर्तों पर नियुक्त प्रबन्ध निदेशक/क्रिस के पद पर पदधारी रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 और रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 द्वारा शासित होगा। यदि प्रबन्ध निदेशक/क्रिस को नियुक्ति स्थायी आमेलन आधार पर होती है, तो वह समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 1.7.1986 के संगम-ज्ञापन, नियम तथा विनियम और उप विधि में अन्तर्विष्ट क्रिस के संबद्ध नियमों द्वारा शासित होगा।

(12) शिथिल/आशोधन करने की शक्ति

इन नियमों को शिथिल/आशोधित करने का प्राधिकार केन्द्र सरकार के पास होगा।

मैथ्यू जॉन
सचिव/रेलवे बोर्ड

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विब राम इण्डिया प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

सं. एल.सी./560(3)/20-23128/277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आज की तिथि से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर मैसर्स विब राम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाए जाने पर कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लखनऊ इको फ्रेंडली
कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 3 मई 2007

सं. एल.सी./560(3)/29263/261--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लखनऊ इको फ्रेंडली कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवलराम फाइनेन्शियल
इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 12 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./04/6697/एस.टी.ए./560/2007/300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स नवलराम फाइनेन्शियल इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशी राज दारा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जम्बो केमिकल्स लिमिटेड
के विषय में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 12 अप्रैल 2007

सं. आर.ओ.सी./14622/एस.टी.ए./560/2007/303--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स जम्बो केमिकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

शशी राज दारा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 21 मार्च 2007

सं. क.र./शिल/560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 10 कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शित न किए जाएं उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	पंजीकृत सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	02-001374	मैसर्स लक्ष्मी सीमेन्ट प्रोडक्ट्स व इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	असम
2.	02-001318	मैसर्स असम ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-001323	मैसर्स शुरमा विनीर व लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	14-001397	मैसर्स नागालैंड रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैंड
5.	02-001321	मैसर्स जूरी व कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	असम
6.	02-001253	मैसर्स उदयपुर टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	असम
7.	02-001329	मैसर्स बेहली यंग एन्टरप्रेनेर्स विनीर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
8.	02-001254	मैसर्स एलमेक इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

1	2	3	4
9.	02-001341	मैसर्स गोगई घोष इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	असम
10.	02-001456	मैसर्स लाइट एक्नो शेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

कोराड़ा आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्व क्षेत्र, शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 2 अप्रैल 2007

सं. क.र./शिल/560(3)/2007/70--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन माहों के बाद निम्नलिखित 18 कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शाया न जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	पंजीकृत सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	02-003718	मैसर्स फार ईस्ट टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
2.	02-003615	मैसर्स डेबोनैर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-003618	मैसर्स पेसिफिक टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	02-003962	मैसर्स अनालाक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	असम
5.	02-003975	मैसर्स ब्रह्मपुत्रा एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
6.	02-003976	मैसर्स ईस्ट हिमालयन एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड	असम
7.	13-003991	मैसर्स नकाशी माइनिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	मेघालय
8.	02-003994	मैसर्स अनिरुद्ध स्टील (असम) प्राईवेट लिमिटेड	असम
9.	23-003997	मैसर्स गेलाक्सी इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	अरुणाचल प्रदेश
10.	12-003929	मैसर्स पखाम्बा स्पेस कन्सल्टेंट्स व डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड	मणिपुर

1	2	3	4
11.	02-003935	मैसर्स ग्रिफिन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	असम
12.	02-003946	मैसर्स वेनगार्ड विजन प्राईवेट लिमिटेड	असम
13.	02-003960	मैसर्स तरुण रीयल एस्टेट व डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
14.	02-003959	मैसर्स शकम्बी लीजिंग व हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	असम
15.	02-003961	मैसर्स उमानन्दा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	असम
16.	02-003910	मैसर्स ध्रुवातारा (असम) प्राईवेट लिमिटेड	असम
17.	02-003919	मैसर्स स्वर्णा टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
18.	02-003920	मैसर्स जीशी एग्री व एलाइड प्रोड्यूसर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

कोराड़ा आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्व क्षेत्र, शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

शिलांग-793 001, दिनांक 3 अप्रैल 2007

सं. क.र./शिल/560(3)/2007/71--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित दिनांक से तीन माहों के बाद निम्नलिखित 20 कम्पनियों का नाम जब तक कारण दर्शाया न जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे :--

क्रम सं.	पंजीकृत सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	02-003715	मैसर्स मेगा विजन प्राईवेट लिमिटेड	असम
2.	02-003711	मैसर्स क्लीवलैंड क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-003710	मैसर्स मार्स मीडिया कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	19-003709	मैसर्स कामक्षा हैन्डीक्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	त्रिपुरा
5.	02-003856	मैसर्स डेका क्लॉथ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

1	2	3	4
6.	14-003861	मैसर्स संजय सर्जीकेयर व डाइग्नोस्टिक क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड	नागालैंड
7.	02-003862	मैसर्स अटल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	असम
8.	02-003863	मैसर्स उत्तरकाल टीविडियोस व एम्यूजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	असम
9.	02-003870	मैसर्स ग्रोवेट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
10.	02-003814	मैसर्स आइवोरी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
11.	02-003810	मैसर्स हण्डिख एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	असम
12.	02-003812	मैसर्स लुइत रेलवे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
13.	02-003816	मैसर्स मण्डेरिशा फारेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
14.	02-003822	मैसर्स जेहोवा कन्स्ट्रक्शन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	असम
15.	02-003829	मैसर्स आरती ट्रान्सपोर्ट व इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	असम
16.	02-003832	मैसर्स मोरान पेट्रोड्रिल प्राईवेट लिमिटेड	असम
17.	14-003855	मैसर्स केशो टिम्बर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	नागालैंड
18.	02-003800	मैसर्स पूर्वान्वल ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
19.	02-003804	मैसर्स ईको फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
20.	02-003806	मैसर्स कोलफर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	असम

कोराड़ा आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्व क्षेत्र, शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

शिलांग-793001, दिनांक 4 अप्रैल 2007

सं. क.र./शिल/560(3)/2007/69--कम्पनी अधिनियम, 1956 की
धारा 560 की उपधारा (3) के तहत सूचना दी जाती है कि यहां लिखित

दिनांक से तीन महीने के बाद निम्नलिखित 19 कम्पनियों का नाम जब
तक कारण दर्शाया न जाए उक्त अधिनियम की धारा 560 की उपधारा
(5) के अनुसार उनके नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए जाएंगे
और कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	पंजीकृत सं.	कम्पनी का नाम	पंजीकृत राज्य
1	2	3	4
1.	02-003733	मैसर्स मस्कट ट्रेड व एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	असम
2.	02-003734	मैसर्स सरयघाट स्टील्स (सेल्स) प्राईवेट लिमिटेड	असम
3.	02-003730	मैसर्स माया फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
4.	02-003732	मैसर्स शाई वीर्विंग प्राईवेट लिमिटेड	असम
5.	02-003719	मैसर्स स्टारलिक केबिल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	असम
6.	02-003729	मैसर्स सुदर्शन वीर्विंग प्राईवेट लिमिटेड	असम
7.	02-003760	मैसर्स ईस्टर्न जोन कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	असम
8.	02-003777	मैसर्स तिरप टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
9.	02-003775	मैसर्स कोपिल प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
10.	02-003758	मैसर्स विक्रम भाई विकाश लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	असम
11.	02-003793	मैसर्स शिल्वन एग्रो एकरस प्राईवेट लिमिटेड	असम
12.	02-003707	मैसर्स जिरी सीमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	असम
13.	02-003788	मैसर्स ओस्ट्रिच फाइनेन्स व इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	असम
14.	02-003798	मैसर्स ब्राइट स्टोर्स व एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	असम
15.	13-003799	मैसर्स नालडोना लाइम स्टेन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	मेघालया
16.	02-003752	मैसर्स एस.एम. रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	असम
17.	02-003779	मैसर्स सेफ्टी ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

1	2	3	4
18.	02-003742	मैसर्स डोरकिंग एनट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	असम
19.	02-003728	मैसर्स शक्ती फौब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	असम

कोराड़ा आनन्दा राव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर-पूर्व क्षेत्र, शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 7 मई 2007

सं. आर.के.सी./एस.ई.एस./560(5)/698--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-001455	मैसर्स दुसो एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-001457	मैसर्स मेक आल मशीन टूल प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-001463	मैसर्स आर.आर. फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-001483	मैसर्स उत्कल टेलीलिक्स लिमिटेड
5.	15-001496	मैसर्स एम. टी. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-001510	मैसर्स इक्सक्लुसिव फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-001516	मैसर्स गोलडन होपर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-001517	मैसर्स इन्कोयर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-001526	मैसर्स इलाइड सेक्युरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-001530	मैसर्स बनदुर्गा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-001534	मैसर्स दास केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-001549	मैसर्स आर. बी. मिश्रा एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-001555	मैसर्स सुप्रीम इन्जीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-001556	मैसर्स हरीशंकर सीमेन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
15.	15-001558	मैसर्स बालाजी ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	15-001568	मैसर्स उत्कल डिसल्ट्प्यूराइजेशन लिमिटेड
17.	15-001574	मैसर्स जी. एम. कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-001583	मैसर्स मीना प्लास्टिक्स एण्ड लेमिनेशन प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-001586	मैसर्स उत्कल सेक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-001591	मैसर्स स्वाती कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-001593	मैसर्स पैरामाउन्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-001595	मैसर्स कोणार्क फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-001598	मैसर्स पूर्वासा एक्सट्रुडर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-001600	मैसर्स उड़ीसा मेराइन एक्सपो प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-001615	मैसर्स उड़ीसा थर्मोमीन प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-001619	मैसर्स धउली मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-001620	मैसर्स रामपाल इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-001630	मैसर्स अरुनज्योती कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-001637	मैसर्स कलिगा फार्मर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-001638	मैसर्स टीपीनगटन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-001640	मैसर्स एनपीडीसी प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-001641	मैसर्स क्लासिक कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-001648	मैसर्स उत्कल एग्रो सिस्टम्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-001661	मैसर्स जगन्नाथ टेलीविजन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-001670	मैसर्स बी. के. पोलीपैक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-001681	मैसर्स श्री कृष्णा वायर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	15-001683	मैसर्स उड़ीसा रबर प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-001685	मैसर्स नारायणी प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-001690	मैसर्स मिनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-001702	मैसर्स कोणार्क टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-001705	मैसर्स जेसिका पेन्ट्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-001708	मैसर्स डी.पी.एस. उड़ीसा प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-001709	मैसर्स बी. एस. मैग्नेटिक मेटेरियल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
44.	15-001711	मैसर्स पैरागन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	71.	15-001857	मैसर्स अमेरीता केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-001715	मैसर्स ओरिएन्ट मेटा जिंक प्राईवेट लिमिटेड	72.	15-001858	मैसर्स जे. के. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-001723	मैसर्स गरुड़ लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	73.	15-001867	मैसर्स गरुड़ रोड वेज प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-001724	मैसर्स यूनाइटेड फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	74.	15-001878	मैसर्स रघुनाथ साल्ट एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	15-001733	मैसर्स महाश्वेता प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	15-001882	मैसर्स एनिमल बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-001734	मैसर्स पद्म पोली फेब इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	76.	15-001885	मैसर्स मिश्रा टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	15-001740	मैसर्स ओम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	77.	15-001888	मैसर्स मयूर वेन्नर प्राईवेट लिमिटेड
51.	15-001745	मैसर्स श्री जगन्नाथ लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	78.	15-001900	मैसर्स खापका हार्ड-कोक इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
52.	15-001748	मैसर्स शक्ति ट्रांसफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	15-001919	मैसर्स मयूरभन्ज आटोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-001758	मैसर्स उड़ीसा बिटुमेन्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	15-001928	मैसर्स सुगम पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-001763	मैसर्स गणपति एप्लायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड	81.	15-001932	मैसर्स सीबा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
55.	15-001764	मैसर्स विक्रान्त टेलीविजन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	82.	15-001943	मैसर्स कोणार्क इन्सुलेशन फोम्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	15-001774	मैसर्स तारिनी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	83.	15-001951	मैसर्स जनता होटल प्राईवेट लिमिटेड
57.	15-001778	मैसर्स करुणा हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	84.	15-001953	मैसर्स उड़ीसा ग्लेज्ड टाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	15-001779	मैसर्स कर्लिगा टेलीविजन्स प्राईवेट लिमिटेड	85.	15-001956	मैसर्स श्री गणेश सॉल्वेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	15-001782	मैसर्स बिकाश इस्टेट एण्ड हाऊसिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	86.	15-001970	मैसर्स एच. एच. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	15-001784	मैसर्स हिमाद्री मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	15-001977	मैसर्स ए. के. मोहन्ती एल्युमिनियम कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
61.	15-001793	मैसर्स रूबी मेराइन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	88.	15-001983	मैसर्स विद्यासागर ग्रामीण फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	15-001810	मैसर्स महाबीर जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	89.	15-001984	मैसर्स एम. आर. पोलीमर प्राईवेट लिमिटेड
63.	15-001813	मैसर्स शक्ति प्लास्टिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	90.	15-003073	मैसर्स पतितपावन कन्स्यूमर्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	15-001820	मैसर्स चकाडोला प्लास्टो प्राईवेट लिमिटेड	91.	15-004238	मैसर्स साबत ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	15-001828	मैसर्स बीनापानी स्पिन्दल टेप मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	92.	15-005157	मैसर्स सोर्व ग्रीन लैण्ड लिमिटेड
66.	15-001840	मैसर्स अग्रवाल कम्प्यूटर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	93.	15-006118	मैसर्स डी. एस. एन. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	15-001843	मैसर्स धीरज ब्रिक्वेट्स प्राईवेट लिमिटेड	94.	15-001438	मैसर्स रोसेटो फाइन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	15-001847	मैसर्स ईस्टर्न क्रशनेट इन्जीनियरिंग वर्क प्राईवेट लिमिटेड	95.	15-001452	मैसर्स जगन्नाथ मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	15-001854	मैसर्स बनबिहारी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड			बी. महान्ती
70.	15-001856	मैसर्स अपकॉन कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड			कम्पनी रजिस्ट्रार
					उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निकसीम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 25 अप्रैल 2007

सं. आरओसीबी/560(3)/16468/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निकसीम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 7 मई 2007

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(3)/2006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी रजि. सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	18093	मैसर्स ईएमएस सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	19466	मैसर्स साई विन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
3.	19997	मैसर्स शरावी कम्प्यूटर सल्यूशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
4.	22602	मैसर्स मेघादूतम एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	18772	मैसर्स स्टोनलाइन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	19524	मैसर्स प्रोस्फोट टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
7.	19117	मैसर्स मार्क इम्पेक्स एण्ड सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	19072	मैसर्स ए.ए. ब्यूटी पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	18927	मैसर्स श्री निधि साई बाबा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	18723	मैसर्स जैन हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
11.	20582	मैसर्स अराफाथ लेदर टैनिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	14006	मैसर्स पेट्रो ग्रान लिमिटेड
13.	23369	मैसर्स आईआरएस बाईन्डरी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
14.	14671	मैसर्स मेवाड़ इन्टरप्राइजेज लिमिटेड
15.	20637	मैसर्स वेनूग्राम कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	14305	मैसर्स इलेक्ट्रो कन्ट्रोल्लेड स्विचगियर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	22914	मैसर्स एनेक्स टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
18.	18915	मैसर्स मलूर डेरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	20949	मैसर्स अर्चना टेक्नोलोजी रिसोर्स पार्क लिमिटेड
20.	19492	मैसर्स हुबली एग्स पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
21.	20451	मैसर्स पूजा फ्लोरीकल्चर लिमिटेड
22.	18355	मैसर्स बिल्ली आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
23.	14266	मैसर्स टेमासेक कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	14174	मैसर्स कम्प्यूटर गैरेज इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
25.	14173	मैसर्स टर्बो इन्डस्ट्रीयल पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15437	मैसर्स संजीवनी टीक एण्ड प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड
27.	16185	मैसर्स श्री विष्णु सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	20826	मैसर्स अन्पूर्णेेश्वरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	13993	मैसर्स स्टोना मारमा क्वारजाइट प्राईवेट लिमिटेड
30.	16707	मैसर्स बुल्स फाइनेन्स लिमिटेड
31.	12717	मैसर्स नव्या फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	16895	मैसर्स वारीमन इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	12736	मैसर्स बीजापुर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	15135	मैसर्स मोदा लेदर प्राईवेट लिमिटेड
35.	16879	मैसर्स मणीपाल इन्व्ोरेन्स ब्रोकिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	17935	मैसर्स बेंगलोर प्राइम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	12824	मैसर्स स्वाती कल्चरल्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	22172	मैसर्स हमसा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
39.	14040	मैसर्स मोनोलिथिक होम फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
40.	17916	मैसर्स नेक्सटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	17881	मैसर्स स्टार गुडविल इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
41.	15230	मैसर्स कम्प्यूटर लोजिक सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	68.	13773	मैसर्स प्रेमाम्जली चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	14096	मैसर्स नागराज बाँयो मेडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	14066	मैसर्स ओबीय फास्ट फूड प्राईवेट लिमिटेड
43.	17483	मैसर्स कृष्णचैतन्य चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	23211	मैसर्स विनकॉम पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	19520	मैसर्स क्यू.एस.आई. मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	13637	मैसर्स प्रोम सिस्टम (बेंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड
45.	22995	मैसर्स वालीशीय मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	72.	12324	मैसर्स हॉटलाइन कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	22549	मैसर्स करपागम केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	18964	मैसर्स टेकयोजना टीक इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
47.	19276	मैसर्स ओम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	74.	20805	मैसर्स एम.बी.एम.एम. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	19422	मैसर्स क्यूनीला हॉस्पिटलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	75.	14890	मैसर्स रेडट्रोनिक्स मेडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	12934	मैसर्स नन्दिता ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	76.	18532	मैसर्स डेरा फिनस्टॉक प्राईवेट लिमिटेड
50.	14445	मैसर्स बारोन हेक्सा प्राईवेट लिमिटेड	77.	16695	मैसर्स ए.आर.सी. डायनामिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
51.	15828	मैसर्स मगवी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	14836	मैसर्स श्री सप्तगिरी क्रेडिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	12010	मैसर्स श्री हरीवायु सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	18483	मैसर्स श्री रेणुका इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	18376	मैसर्स गंगोत्री इन्फन लिमिटेड	80.	13325	मैसर्स मेजान स्टील एण्ड एलोज प्राईवेट लिमिटेड
54.	18375	मैसर्स वृन्दावन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	81.	21441	मैसर्स रोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	18374	मैसर्स चामुन्डी रीयल इस्टेट्स लिमिटेड	82.	21094	मैसर्स रिचडल फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	13340	मैसर्स बेंगलोर प्रोजेक्ट्स इन्वुपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	14940	मैसर्स ग्रेल सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	14485	मैसर्स फिशर बैटरीज प्राईवेट लिमिटेड	84.	17835	मैसर्स श्री राजाराजेन्द्रा स्पिनटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	15546	मैसर्स होमा एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	85.	15738	मैसर्स रघुरामा ऑयल एक्सट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	15497	मैसर्स शुभलक्ष्मी फ्रेट कैरियर प्राईवेट लिमिटेड	86.	14431	मैसर्स उज्ज्वल प्रिसियस स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	17320	मैसर्स सनका इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	87.	12727	मैसर्स ममता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	18008	मैसर्स राव रुक एग्रो इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	88.	14641	मैसर्स एसकेएस हाऊसिंग लिमिटेड
62.	18433	मैसर्स अमृतेश प्रिसिजन कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	89.	12585	मैसर्स मेगा क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
63.	17023	मैसर्स श्री साई हॉलिडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	90.	13312	मैसर्स मान्डया एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	16531	मैसर्स वासुप्रदा इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड			
65.	18186	मैसर्स वरासिद्धी विनायक एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड			
66.	17892	मैसर्स ऐरो एयर कार्गो कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
91.	18945	मैसर्स मेघा मल्हार एयर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	107.	17046	मैसर्स राजगिर फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	15051	मैसर्स बिरादर राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	108.	12241	मैसर्स हाई लैण्ड माइन्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	20884	मैसर्स स्पेक्ट्रम होम्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	12577	मैसर्स विनरिच फाइनेन्स लिमिटेड
94.	18430	मैसर्स एस एण्ड एस बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	110.	21596	मैसर्स नटराज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	21374	मैसर्स टेक मेटालिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	111.	23589	मैसर्स देवा कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	19680	मैसर्स वी. एस. नेचुरल क्लोथिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	112.	13909	मैसर्स स्टर्लिंग लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	22131	मैसर्स कारपोरेट ऑटोमेशन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	22585	मैसर्स तरुण भारत फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	19866	मैसर्स सेषा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	114.	13159	मैसर्स पी. के. लीजिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
99.	13012	मैसर्स अवीम इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	115.	20118	मैसर्स द्वेथा फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	16717	मैसर्स अम्बिका रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	116.	16444	मैसर्स डारसेन ग्राफिक्स एण्ड डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	22903	मैसर्स वृन्दावन डेरीज प्राईवेट लिमिटेड	117.	13568	मैसर्स तेजा दीपका फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	23122	मैसर्स मानो एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	118.	13307	मैसर्स रील लाइफ प्रोडक्शन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
103.	21925	मैसर्स मीरामर ट्रेडिंग एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	119.	23476	मैसर्स मिलेनियम मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	22584	मैसर्स तरुण भारत (पब्लिशर्स) प्राईवेट लिमिटेड	120.	23500	मैसर्स पल्लवी स्टीरियोज प्राईवेट लिमिटेड
105.	20840	मैसर्स सौभाग्य रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड			
106.	13118	मैसर्स अदस्पाक एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड			

संतोष कुमार
सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
कर्नाटका

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 20th April 2007

No. A-32013/5/2005-Admn.II—In pursuance of the recommendation of the Union Public Service Commission, Shri Kulbir Singh, Joint Director (Exam. Reforms). In the office of UPSC is appointed to the post of Joint Director (Research, Statistics and Analysis) (General Central Service, Group-"A", Gazetted, Non-ministerial) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Commission's office on deputation basis for a period of three years with immediate effect, until further orders.

2. During the period of deputation, the pay of Shri Kulbir Singh, JD (RS&A) will be regulated in accordance with the DoP&T OM No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 5.1.94 as amended from time to time.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 24th April 2007

No. DP/Pers.I/2007/87/A-20023/15/83—Shri Thakur Dass relinquished charge of the post of Dy. Legal Adviser, CBI with effect from 31.01.2007 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

SURINDER MOHAN
Admin. Officer (Pers.)

The 4th May 2007

No. DP/Pers.II/2007/1398/A-34012/1/2002—Shri Akhilesh Kumar relinquished the charge of the post of Senior Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.03.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

SURINDER MOHAN
Admin. Officer (Pers.)

No. DP/Pers.II/2007/1398/A-34012/7/2005—Smt. K. Saraswathy, Personal Assistant on her promotion, has taken over the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 2.04.2007.

SURINDER MOHAN
Admin. Officer (Pers.)

No. DP/Pers.I/2007/92/3/24/2007/Pers.I—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Francis Andrade, Crime Assistant, CBI to the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 11.04.2007.

SURINDER MOHAN
Admin. Officer (Pers.)

New Delhi-110 003, the 24th April 2007

No. DP/Pers.I/2007/88/3/14/2000—Services of Shri Kiran D. Jadhav, IPS (UP : 1991), DIG, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 07.04.2007, on repatriation.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110 003, the 4th May 2007

No. 16/7/2001-Adm (FS)—The President is pleased to appoint Shri Brijender Badoniya as Assistant Director (Physics) in the Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh under the Directorate of Forensic Science on promotion with effect from 30.03.2007 (Forenoon) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-.

Dr. M. S. RAO
Dir. (FS)

No. 11/30/2004-Adm (FS)—Director (FS)—cum-Chief Forensic Scientific, Directorate of Forensic Science is pleased to appoint the following as Junior Scientific Officer in the Central Forensic Science Laboratories under the Directorate of Forensic Science on promotion with effect from dates indicated against each in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-.

Name	Place of Posting	Date of appointment
Shri A.S. Dutta	CFSL, Kolkata (Chemical Division)	02.04.2007 (AN)
Shri P. Sudhakar	CFSL, Hyderabad (Chemical Division)	05.04.2007 (FN)
Shri B. Mukhopadhyay	CFSL, Kolkata (Chemical Division)	02.04.2007 (AN)

Dr. M. S. RAO
Dir. (FS)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 26th April 2007

No. O.II.3742/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Ajoy Kumar Mandal as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 18.04.07 till further order. He is posted to 151 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers.I)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi, the 30th April 2007

No. E-16015/Dep/07/Pers.II/218—Consequent upon appointment as Additional Private Secretary to the Prime Minister in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, Smt. Tapasya Obhrai Nair, Assistant Commandant, CISF has assumed the charge of Addl. PS to the PM with effect from the forenoon of 23 April 2007.

The appointment of Smt. Tapasya Obhrai Nair on the personal staff of Prime Minister is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 4th May 2007

No. E-15014/1/2007/Pers.II/1222—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants as per details given below :—

Name of officer	Rank	Date of promotion as AC	Probation period completed satisfactorily on	Unit
(S/Shri)				
Kashmir Singh	AC/Exe	17.03.03	16.03.07 (Extended period)	PTPS Panki (Now NLC Neyveli)
G.N. Mondal	AC/JAO	20.09.04	19.09.06	7th RBN Jaipur
N. Kindo	-do-	28.01.05	27.01.07	EZ HQrs. Patna

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), WEST BENGAL**

Kolkata-700 001, the 20th April 2007

No. Admn.III/Pen/5-2/Vol. VI/21—Shri Samiran Das-I, Sr. Audit Officer, Shri Pranab Kr. Biswas, Sr. Audit Officer & Shri Amarendra Mazumder, Audit Officer retired from service on superannuation on 31.03.2007 (AN) and Shri Hiranmay Guha, Sr. Audit Officer, retired on voluntarily on 01.03.2007 (FN). All of them belong to the O/o the Pr. A.G. (Audit) W.B.

B. K. MUKHERJEE
DAG (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL, (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500 004, the 2007

Principal Accountant General is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) to officiate as Audit Officers (Civil) in the scale of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No./Date	Date of assumption of charge
(S/Sri/Smt./Kum.)			
1.	Syed Akbar	76/30.06.2006	03.07.2006
2.	V.K.K. Chandra Babu	-do-	-do-
3.	K. Sowbhagya Laxmi	-do-	-do-
4.	P.L.N. Sarma	106/31.07.2006	01.08.2006
5.	A.V. Rama Rao-II	130/31.08.2006	31.08.2006
6.	K. Shravan Kumar	132/31.08.2006	01.09.2006
7.	K. Bharathi	-do-	-do-
8.	M. Pon Daniel	-do-	-do-
9.	B.V. Satyanarayana Rao	-do-	-do-
10.	M. Uma	149/29.09.2006	04.10.2006
11.	N. Ramaswamy	-do-	-do-
12.	A. Venkateswara Rao	-do-	-do-
13.	S. Nagaraju	-do-	-do-
14.	K. Babu Rao-II	166/31.10.2006	01.11.2006
15.	G.J. Srinivasa Rao	193/30.11.2006	04.12.2006
16.	K. Jayakar Babu	206/29.12.2006	02.01.2007
17.	D. Sagar	-do-	-do-
18.	B. Jayaker	-do-	-do-
19.	V. Annapurna	-do-	-do-
20.	Ch. Paul Vijay Kumar	-do-	-do-
21.	D. Surendranath	-do-	-do-
22.	P.V. Chandrasekhar	227/11.01.2007	11.01.2007
23.	M. Narasimha Murthy	231/31.01.2007	01.02.2007
24.	Iqbal Sharief	-do-	-do-
25.	G. Ganga Prasad	-do-	-do-
26.	Ch. Jawahar Lal	-do-	02.02.2007
27.	K. Kiran Vidya Sagar	256/28.02.2007	01.03.2007
28.	V. Venkateswara Rao	-do-	-do-
29.	Geetha Vasudevan	-do-	-do-
30.	K. Sharada Devi	-do-	-do-
31.	B.B. Vara Prasad	278/30.03.2007	02.04.2007

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/ Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F.7/1/80-Estt (P.I) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt (P.I) dated 08.02.1983.

C. SAILAJA
Sr. DAG (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KARNATAKA

Bangalore, the 1st May 2007

No. ESI/A 8/AO/2007-2008/34—The Accountant General (A&E) is pleased to promote Smt. Padmaja A., Assistant Accounts Officer (Unique I.D. No. KABNE 209 0067) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.05.2007 FN or from the date of assuming charge whichever is later, without prejudice to the rights of her seniors if any, until further orders.

2. Option has to be exercised by her for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (1) (a) (i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 30th April 2007

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2007-2008—The following officers of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Smt. Susamma Kuruvilla Deputy Accountant General	31.03.2007	Superannuation
2.	Sri K. Gangadharan Senior Audit Officer (C)	31.03.2007	Superannuation

DIWAKARAN PILLAI
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 24th April 2007

No. A-19011/296/07-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri R.N. Meshram, Superintending Mineral Economist (Int) is promoted to the post of Chief Mineral Economist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 13.04.2007 (Afternoon).

S. DASGUPTA
Sr. Admin. Officer
For Controller General

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 17th April 2007

No. 10/1/2005/M—In exercise of the power conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I. C. Dorjee, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at the Centrally Protected Monuments specified in the Second Schedule of the Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act, 1959 on 18th April, 2007 on the occasion of World Heritage Day celebration.

C. DORJEE
Dir. (Monuments)
For Director General

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE

NH-IV, Faridabad-121 001, the 27th April 2007

No. 2-6/2006-Adm.I—Plant Protection Adviser to the Govt. of India has appointed the following SSA-II (Chemistry), on their promotion, as Plant Protection Officers (Chemistry) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from the date mentioned against each :—

S.No.	Name	Date of appointment
1.	Sh. M. Chidambaram	28.02.2007 (F.N.)
2.	Sh. P.K. Ankolekar	05.03.2007 (F.N.)
3.	Sh. D.K. Mittal	05.03.2007 (F.N.)
4.	Sh. K.V. Singh	27.02.2007 (F.N.)
5.	Sh. R.P. Bhatnagar	05.03.2007 (F.N.)

MASHIR AHMED
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-110 012, the 30th April 2007

No. 5-325/07-Establishment—On attaining the age of superannuation, Shri P.N. Gaba, Extension Officer, in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, stands retired from Government service from the afternoon of 30th April, 2007.

S. K. BISWAS
Dy. Dir. (Admin.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 30th April 2007

No. PD/7(18)/2006-R-IV/SO(D)/45429.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/—, in the same Research Centre with effect from the forenoon of August 1, 2006 except Smt. Uma Sharad Bhartiya, Sl. No. 68, Shri Yogesh Kumar Gupta, Sl. No. 81 and Shri Debashis Das, Sl. No. 91, whose dates of appointment are with effect from the forenoon of April 16, 2007, August 11, 2006 and August 8, 2006 respectively, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade
1	2	3
1.	Shri Mohandas Karamchand Pradhan	SO/C
2.	Shri Ramesh Pativada	SO/C
3.	Shri Elumalai Shanmugam	SO/C
4.	Smt. Remya Devi Periyamana Sankaran Nampoothiri	SO/C
5.	Shri Lalit Kumar	SO/C
6.	Dr. Anoop Kelkar	SO/C
7.	Shri Bommisetty Surendra	SO/C
8.	Shri Kousik Sadhukhan	SO/C
9.	Shri Raj Kumar	SO/C
10.	Shri Alok Kumar Saxena	SO/C
11.	Shri Abhijit Ravindra Tillu	SO/C
12.	Shri Satendra Kumar	SO/C
13.	Shri Naveen Kumar	SO/C
14.	Shri Dibakar Goswami	SO/C
15.	Shri Jitesh Singh Rathee	SO/C
16.	Shri Soumyaditya Mula	SO/C
17.	Kum. Somali Phani	SO/C
18.	Shri Brajpal	SO/C
19.	Shri Jitendra Vir Singh	SO/C
20.	Shri Gaurav Varshney	SO/C
21.	Shri Balaji Prasad Mandal	SO/C
22.	Shri Dheeraj Jain	SO/C
23.	Shri Kaustava Bhattacharyya	SO/C
24.	Shri Alok Kumar	SO/C
25.	Shri Avik Sil	SO/C

1	2	3
26.	Shri Kaushik Datta	SO/C
27.	Shri Partha Pratim Dhar	SO/C
28.	Shri Sankaran Sundar Rajan	SO/C
29.	Shri Vipin Gupta	SO/C
30.	Shri Hunaid Zohir Fani	SO/C
31.	Shri Chenna Keshavulu Gurram	SO/C
32.	Shri Raha Abhijit	SO/C
33.	Shri Vallikavalil Sudhakaran Somarajan	SO/C
34.	Shri Khune Shahaji Bhanudas	SO/C
35.	Shri Chandra Bhushan Kothari	SO/C
36.	Kum. Chakrabarty Aditi	SO/C
37.	Shri Barendra Kumar Rana	SO/C
38.	Shri Chinnaesakki Shunmugavelu	SO/C
39.	Shri Raja Kishora Lenka	SO/C
40.	Kum. Menka Tewani	SO/C
41.	Shri Keshav Baweja	SO/C
42.	Shri Praveen Kumar Suggiseti	SO/C
43.	Shri Rajit Ram	SO/C
44.	Kum. Sangita Dhara	SO/C
45.	Shri Manoj Kumar Sharma	SO/C
46.	Shri S. Sanjay Kumar	SO/C
47.	Smt. Meera Sanjay Keskar	SO/C
48.	Shri Gajjar Nikunj Bharat	SO/C
49.	Shri Swapan Kumar Sen	SO/C
50.	Shri A. Arul Anantha Kumar	SO/C
51.	Smt. Muppalla Shobita Rao	SO/C
52.	Shri Sandeep Pandurang Patil	SO/C
53.	Smt. Jyoti Jha	SO/C
54.	Smt. Arti Sachin Mhatre	SO/C
55.	Shri S. Venkatraman	SO/C
56.	Shri Krishan Kumar Pandey	SO/C
57.	Shri Hemant Kumar Patni	SO/C
58.	Smt. Minal Yesuraja Nadar	SO/C
59.	Shri E.D.E. Srinivas Rao	SO/C
60.	Shri Kanchan Majumdar	SO/C
61.	Shri Natarajan Sivarajan Vivekanandhan	SO/C
62.	Shri ThammiSETTI Satya Sai Srinivasu	SO/C
63.	Shri Ajay Kumar	SO/C

1	2	3	1	2	3
64.	Shri Dev Ranjan Das	SO/C	102.	Shri Alok Kumar Vishnoi	SO/C
65.	Shri Nagaraj Alangi	SO/C	103.	Shri Arnab Dasgupta	SO/C
66.	Shri Chinagandham Rajesh	SO/C	104.	Shri Satyajit Dey	SO/C
67.	Shri Shrinibas Nayak	SO/C	105.	Shri Subal Chandra Hanra	SO/C
68.	Smt. Uma Sharad Bhartiya	SO/C	106.	Shri Yogesh Kumar Upreti	SO/C
69.	Ms. Pritty Choudhary	SO/C	107.	Shri K. Ravi	SO/C
70.	Shri Partha Sarathi Maity	SO/C	108.	Shri Kumar Raja Macha	SO/C
71.	Shri Ram Dayal	SO/C	109.	Shri Madhusoodan	SO/C
72.	Smt. Kota Swathi	SO/C	110.	Shri Manoj Kumar	SO/C
73.	Dr. (Smt.) Indrani Halder	SO/C	111.	Shri Riteshkumar Ajitray Joshi	SO/C
74.	Dr. Rajesh Kishan Jha	SO/C	112.	Shri Sukumar Layek	SO/C
75.	Shri Abhishek Mukherjee	SO/C	113.	Shri Rajib Das	SO/C
76.	Shri Tammana Sreerama Chandramurthy	SO/C	114.	Kum. Argala Srivastava	SO/C
77.	Shri Amit Prakash Srivastava	SO/C	115.	Shri Rajkumar	SA/E
78.	Shri Sudhir Singh	SO/C	116.	Shri Sivaramakrishnan Kartha Ramabhadran	SO/C
79.	Shri Suwendu Mondal	SO/C	117.	Shri Akanshu Sharma	SO/C
80.	Shri Ramlal	SO/C	118.	Shri Contractor Ankur Dipakbhai	SO/C
81.	Shri Yogesh Kumar Gupta	SO/C	119.	Shri Santosh	SO/C
82.	Smt. Sapna Padmakumar	SO/C	120.	Shri Subhasish Guin	SO/C
83.	Shri Gangadhar Huddar	SO/C	121.	Shri Thangamani Inbanathan	SO/C
84.	Shri Karkhanis Prasad Pradip	SO/C	122.	Shri Sachin Gajanan Mhatre	SO/C
85.	Shri Lad Shashikant Chandrakant	SO/C	123.	Shri Sudhir Kumar	SO/C
86.	Shri Mittal Shah	SO/C	124.	Smt. Mausumi Sengupta Mitra	SO/C
87.	Shri Rajasekaran Singadurai	SO/C	125.	Shri Praveen Kumar Mishra	SO/C
88.	Shri Subhasish Pahari	SO/C	126.	Shri Shiju Varghese	SO/C
89.	Smt. Mitun Dey	SO/C	127.	Kum. Jayashree Biswal	SO/C
90.	Shri Chandra Bhan Singh	SO/C	128.	Shri Man Mohan Kaul	SO/C
91.	Shri Debashis Das	SO/C	129.	Kum. Anita Gupta	SO/C
92.	Ms. S. Manju Bhargavi	SO/C	130.	Shri Raj Bahadur Tokas	SO/C
93.	Shri Rajan Kumar Singh	SO/C	131.	Shri Anil Jain	SO/C
94.	Shri Ram Chandram	SO/C	132.	Kum. Chandrani Bhattacharya	SO/C
95.	Shri Arup Kumar Pathak	SO/C	133.	Shri Kuldeep Sharma	SO/C
96.	Shri Amit Kumar	SO/C	134.	Shri Rajendra Kumar Sharma	SO/C
97.	Kum. Chhavi Agarwal	SO/C	135.	Shri Shankar Prasad Koiry	SO/C
98.	Smt. Rajeswari Balasubramanian	SO/C	136.	Shri R. Anbazhagan	SO/C
99.	Shri Vimal Parakhiya	SO/C	137.	Shri Rajkumar	SO/C
100.	Shri Vinay Prakash Pandey	SO/C	138.	Shri Subhankar Manna	SO/C
101.	Shri Vivek Sheel Mittal	SO/C			

1	2	3
139.	Shri Murtaza Moni Hita	SO/C
140.	Smt. Deepa Kishor Bhambure	SO/C
141.	Shri Nirmal Sur	SO/C
142.	Smt. Jyoti Diwan	SO/C
143.	Shri Kasi Visweswara Rao N.	SO/C
144.	Shri Mahavir Prasad Upadhyay	SO/C
145.	Shri Malusare Mangesh Maruti	SO/C
146.	Shri Manish Kumar	SO/C

P. VENUGOPALAN
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 26th April 2007

No. 22/3(2)/2007-CCS/14.—The President is pleased to appoint Shri V.S. Shanbhag, Assistant Stores Officer (Scale of pay of Rs. 6500—10500), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Stores Officer (Scale of pay of Rs. 10000—15200/-) in the same Directorate with effect from 04.04.2007 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400 705, the 24th April 2007

No. BRIT/9/17/AUG/06/29.—The President is pleased to appoint Dr. V. B. Kadwad, Scientific Officer/Engineer Grade 'D' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2006 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/AUG/06/30.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Mishra, Scientific Assistant Grade 'F' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2006 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/AUG/06/31.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers

Grade 'C' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'D' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2006 until further orders :—

Sl.No.	Name
1.	Shri S. B. Kamble
2.	Shri A. V. Venkitaraman
3.	Shri R. B. Kurmi
4.	Shri G. L. Vispute
5.	Shri D. B. Kalgutkar

A. K. KOHLI
Chief Executive

No. BRIT/9/17/AUG/06/32.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2006 until further orders :—

Sl.No.	Name
1.	Shri P. K. Jothish
2.	Shri A. Thulasidhasan

A. K. KOHLI
Chief Executive

Navi Mumbai-400 705, the 24th April 2007

No. BRIT/9/17/AUG/06/33.—Chief Executive, BRIT appoint Shri B. K. Tiwary, Scientific Assistant Grade 'C' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same unit with effect from the forenoon of August 01, 2006 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

The 28th April 2007

No. BRIT/9/11/2007/38.—The Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology, Mumbai appoints Shri Ravindra Dattatray More, Assistant Accountant, DCS&EM (Scale of pay Rs. 6500-200-10500/-) to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the Board of Radiation & Isotope Technology with effect from the forenoon of April 27, 2007 until further orders.

O. BHARATHAN
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 30th April 2007

No. HWB/R/1(67)/2007/530—The President is pleased to appoint Smt. Preeti Aseem Saroop to officiate as 'Scientific Officer/D (Civil)' in a temporary capacity in Heavy Water Board (Central Office), Mumbai in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from April 20, 2007 (FN) until further orders.

N. J. SIMON
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 30th April 2007

No. NFC/ADM/PEN/03/05/1178—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers belonging to Group 'A' of the Department of Atomic Energy, Nuclear Fuel Complex in a substantive capacity in the post and with effect from the date mentioned against their names :—

E.C. No.	Name	Confirmed Post	Date of Confirmation
	Shri/Smt/Kum		
6297	M V S R Ravi Kanth	SO/(C)	01.10.2006
6298	G. Sreenivas Kumar	SO(C)	01.10.2006
6299	T T Srichandan	SO(C)	01.10.2006
6300	Liji George	SO(C)	01.10.2006
6301	Mahak Garg	SO(C)	01.10.2006
6302	Mudit Agarawal	SO(C)	01.10.2006
6303	P B Chaudhary	SO(C)	01.10.2006
6304	Jobin Kosky	SO(C)	01.10.2006

K. S. MURTY
Asst. Personnel Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 20th April 2007

No. AMD-8/1/2006-Rectt./164—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri N.S. Kalwe, Assistant Accountant (Scale of Pay of Rs. 6500-200-10,500), AMD, Nagpur as Assistant Accounts Officer (Scale of Pay of Rs. 7450-225-11500) in the same Directorate on adhoc basis with effect from the forenoon of 30.10.2006 to 22.12.2006.

G. M. NAIR
Chief Admin. & Accounts Officer

Hyderabad-500 016, the 27th April 2007

No. AMD-4/3/2006-Rectt/201—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officer/Engineer of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-D carrying the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the same Directorate in an officiating capacity with effect from 13.12.2004 until further orders :—

Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Scale of pay	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
Sh. Anil Kumar Sharma	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325-15,200	Group-B (Tech.)	13.12.2004

Dr. ANJAN CHAKI
Dir.

No. AMD-4/2/2006-Rectt/200/151—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grade of Scientific Officer-F carrying the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the date shown against each, until further orders :—

Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
S/Shri S.N. Saini	SO-E	SO-F	Group-A (Sci.)	01.08.2005
R. B. Jain	SO-E	SO-F	Group-B (Sci.)	01.08.2005

Dr. ANJAN CHAKI
Dir.

Hyderabad-500 016, the 3rd May 2007

No. AMD-16/2/2002-Rectt./219—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Sona Ram Purty, Assistant Security Officer-A (Scale of Pay of Rs. 5500-175-9000) as Security Officer (Scale of Pay of Rs. 6500-200-10500) in the same Directorate on adhoc basis with effect from the forenoon of 04.12.2006 to 02.03.2007.

G. M. NAIR
Chief Admin. & Accounts Officer

No. AMD-16/1/2002-Rectt/220—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints

Shri N. Ravindran, Assistant Security Officer-A (Scale of Pay of Rs. 5000-150-8000), Heavy Water Plant, Tuticorin as Security Officer (Scale of Pay of Rs. 6500-200-10500) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, New Delhi with effect from the forenoon of 26.03.2007 until further orders.

G. M. NAIR
Chief Admin. & Accounts Officer

No. AMD-8/1/2006-Rectt./221—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri N. Murali, Sr. Clerk (Scale of Pay Rs. 5000-150-8000), AMD, Hyderabad as Assistant Accounts Officer (Scale of Pay of Rs. 7450-225-11500) in the same Directorate on adhoc basis with effect from the forenoon of 21.03.2007 to 20.04.2007.

G. M. NAIR
Chief Admin. & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 27th April 2007

No. A.20012/42/71-E.II—On attaining the age of superannuation, Shri S.L. Bali, Section Officer in this office, stands retired from government service with effect from 30.04.2007 (AN).

SUSHIL T. WILLIAMS
Dy. Dir. of Admin.

The 30th April 2007

No. A-19011/4/1992-E-II—On attaining the age of superannuation, Shri Lachhman Dass, Director of Airworthiness stands retired from Government service with effect from 30.04.2007 (Afternoon).

SUSHIL T. WILLIAMS
Dy. Dir. of Admin.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th April 2007

No. 2005/E(O)II/5/40—In exercise of the powers conferred on the Ministry of Railways (Railway Board) the following Recruitment Rules are hereby made for the post of Managing Director, Centre for Railway Information Systems, an Autonomous Society registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

(1) Short title and commencement

- (a) These rules may be called the "Recruitment Rules for the post of Managing Director (MD), Centre for Railway Information Systems (CRIS), 2007."

- (b) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) Number of post

The number of post shall be one.

(3) Pay Scale of MD/CRIS

Rs. 24050-650-26000/- (with Central DA)

(4) Method of recruitment

- (a) The post MD/CRIS shall be filled by the method of Selection.

- (b) The Ministry of Railways shall constitute a Search-cum-Selection Committee with the concurrence of the Department of Personnel and Training whenever a selection process is initiated for filling up the post of MD/CRIS. The Search-Cum-Selection Committee shall include one Member of the Railway Board (viz. Member Traffic), one representative of the Department of Personnel and Training of appropriate grade viz. Secretary level and would also mandatorily include at least one Expert of eminence from outside Railway from the relevant field e.g. Information Technology. The Committee shall recommend names of two persons in order of preference. The recommendation of the Search-cum-selection committee shall require the prior approval of the Appointments Committee of the Cabinet before appointment to the post of MD/CRIS is made by the Ministry of Railways.

- (c) The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, then a fresh committee will be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of persons recommended in the earlier panel.

5. Eligibility

The post of MD/CRIS shall be filled up on deputation or on absorption basis from amongst eligible Railway officers of Indian Railway Traffic Service working in Higher Administrative Grade (HAG) (Rs. 22400-24500) with Central Government Dearness Allowance. Ex SAG/IRTS officers working as Executive (in the grade of Rs. 20500-500-26500/- with industrial DA) in a PSU on permanent absorption basis and having minimum 3 years of experience in the post on the date of occurrence of vacancy of MD/CRIS, shall be treated as internal candidate and will be eligible for consideration for the post of MD/CRIS on absorption basis only.

(6) Period of appointment

The period of appointment shall be 5 years or till the officer attains the age of 60 years or superannuation, whichever is earlier.

(7) Age limit

- (i) Minimum 55 years
- (ii) Not more than 58 years for internal candidates working in a PSU and not more than 57 years for others on the date of occurrence of the vacancy of MD/CRIS.

(iii) The age of superannuation is 60 years.

(8) Qualifications

The officer should be in HAG (Rs. 22400-24500/-) of IRTS. Ex SAG/IRTS officers (Scale of Rs. 18400-500-22400/-) who get absorbed in a PSU (in grade Rs. 20500-26500/- with Industrial DA) with three years experience in the PSU post will also qualify. Relevant experience gained by an officer in different assignments particularly in challenging positions, his technical and professional exposure including Design Development, and Implementation of I.T. system would be given due weightage during the selection process.

(9) Extension of tenure

The authority for approval of extension of tenure of MD/CRIS will vest with the ACC.

(10) Entrusting additional charge

The authority for entrusting additional charge of MD/CRIS will vest with the ACC.

(11) Disciplinary Rules

The incumbent of the post of MD/CRIS appointed on deputation terms shall be covered under the Railway Servants (Discipline and Appeals) Rules 1968 and Railway Services (Conduct) Rules, 1966. In case of MD/CRIS appointed on permanent absorption basis, he shall be governed by the relevant rules of CRIS contained in the Memorandum of Association, Rules and Regulations and Bye Laws dated 1.7.1986 as amended from time to time.

(12) Powers to relax/modify

The authority for relaxing/modifying these Rules shall vest with the Central Government.

MATHEW JOHN
Secy., Railway Board

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPTT. OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s. Vib Ram India Private Limited

Kanpur, the 30th March 2007

No. LC/560(3)/20-23128/277—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vib Ram India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
U.P. & Uttranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s. Lucknow Eco Friendly Construction Private Limited

Kanpur, the 3rd May 2007

No. LC/560(3)/20-029263/261—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucknow Eco Friendly Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
U.P. & Uttranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s. Navalram Financial Investment Private Limited

Ahmedabad, the 12th April 2007

No. 04-6697/ROC/JTA/(KH)U/s. 560(3) 2007/300—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navalram Financial Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. R. DARA
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s. Jumbo Chemicals Limited

Ahmedabad, the 12th April 2007

No. 04-14627/ROC/JTA/(KH)U/s. 560(3) 2007/303—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jumbo Chemicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. R. DARA
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of Companies Act, 1956
and of following Companies

Shillong-793 001, the 21st March 2007

No. ROC/SH/560(3)/2007/96—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after expiry of 3 (three) months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act.

Sl. No.	Registration Number	Name of the Company	Registered in the State of
1.	02-001374	M/s. Lakshmi Cement Products & Industries Pvt. Ltd.	Assam
2.	02-001318	M/s. Assam Tractors Pvt. Ltd.	Assam
3.	02-001323	M/s. Surma Veneer & Laminates Pvt. Ltd.	Assam
4.	14-001397	M/s. Nagaland Rolling Mills Pvt. Ltd.	Nagaland
5.	02-001321	M/s. Juri & Co. Pvt. Ltd.	Assam
6.	02-001253	M/s. Udaipur Tea Company Pvt. Ltd.	Assam
7.	02-001329	M/s. Behali Young Entrepreneurs Veneer Mills Pvt. Ltd.	Assam
8.	02-001254	M/s. Elmech Engineering Works Pvt. Ltd.	Assam
9.	02-001341	M/s. Gogoi Ghosh Industries Pvt. Ltd.	Assam
10.	02-001456	M/s. Lite Econo Savings Company Pvt. Ltd.	Assam

K. ANANDA RAO
Registrar of Companies
NE Region, Shillong

In the matter of Companies Act, 1956
and of following Companies

Shillong-793 001, the 2nd April 2007

No. ROC/SH/560(3)/2007/396—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after expiry of 3 (three) months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act.

Sl. No.	Registration Number	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3	4
1.	02-003718	M/s. Far East Textiles Pvt. Ltd.	Assam
2.	02-003615	M/s. Debonair Traders Pvt. Ltd.	Assam
3.	02-003618	M/s. Pacific Textiles Pvt. Ltd.	Assam
4.	02-003962	M/s. Analac Services Pvt. Ltd.	Assam

1	2	3	4
5.	02-003975	M/s. Brahmaputra Associates Pvt. Ltd.	Assam
6.	02-003976	M/s. East Himalayan Exim Pvt. Ltd.	Assam
7.	13-003991	M/s. Nakasi Mining Products Pvt. Ltd.	Meghalaya
8.	02-003994	M/s. Anirudha Steel (Assam) Pvt. Ltd.	Assam
9.	23-003997	M/s. Galaxy Engineering Pvt. Ltd.	Arunachal Pradesh
10.	12-003929	M/s. Pakhangba Space Consultant and Designers Pvt. Ltd.	Manipur
11.	02-003935	M/s. Griffin India Pvt. Ltd.	Assam
12.	02-003946	M/s. Vanguard Vision Pvt. Ltd.	Assam
13.	02-003960	M/s. Tarun Real Estates and Developers Pvt. Ltd.	Assam
14.	02-003959	M/s. Shakambri Leasing and Hire Purchase Pvt. Ltd.	Assam
15.	02-003961	M/s. Umananda Properties Pvt. Ltd.	Assam
16.	02-003910	M/s. Dhruvatar (Assam) Pvt. Ltd.	Assam
17.	02-003919	M/s. Swarna Textiles Pvt. Ltd.	Assam
18.	02-003920	M/s. Jacee Agro and Allied Produces Pvt. Ltd.	Assam

K. ANANDA RAO
Registrar of Companies
NE Region, Shillong

In the matter of Companies Act, 1956
and of following Companies

Shillong-793 001, the 3rd April 2007

No. ROC/SH/560(3)/2007/397—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after expiry of 3 (three) months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act.

Sl. No.	Registration Number	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3	4
1.	02-003715	M/s. Mega Vision Pvt. Ltd.	Assam
2.	02-003711	M/s. Cleaveland Clinic Pvt. Ltd.	Assam
3.	02-003710	M/s. Mars Media Consultants Pvt. Ltd.	Assam
4.	19-003709	M/s. Kamakhya Handicraft Pvt. Ltd.	Tripura
5.	02-003856	M/s. Deka Cloth Mills Pvt. Ltd.	Assam
6.	14-003861	M/s. Sanjay Surgicare and Diagnostic Clinic Pvt. Ltd.	Nagaland
7.	02-003862	M/s. Anal Export Import Co. Pvt. Ltd.	Assam
8.	02-003863	M/s. Uttarkaal Tvideos and Amusement Pvt. Ltd.	Assam

1	2	3	4
9.	02-003870	M/s. Grovet Products Pvt. Ltd.	Assam
10.	02-003814	M/s. Ivory Constructions Pvt. Ltd.	Assam
11.	02-003810	M/s. Handique Enterprise Pvt. Ltd.	Assam
12.	02-003812	M/s. Luit Revel Resort Pvt. Ltd.	Assam
13.	02-003816	M/s. Manderdisa Forest Products Pvt. Ltd.	Assam
14.	02-003822	M/s. Jehova Constructions (India) Pvt. Ltd.	Assam
15.	02-003829	M/s. Arati Transport and Investment Pvt. Ltd.	Assam
16.	02-003832	M/s. Moran Petrodrill Pvt. Ltd.	Assam
17.	14-003855	M/s. Keso Timber Products Pvt. Ltd.	Nagaland
18.	02-003800	M/s. Purbanchal Bricks Pvt. Ltd.	Assam
19.	02-003804	M/s. Eeco Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	Assam
20.	02-003806	M/s. Kolfer India Pvt. Ltd.	Assam

K. ANANDA RAO
Registrar of Companies
NE Region, Shillong

In the matter of Companies Act, 1956
and of following Companies

Shillong-793 001, the 4th April 2007

No. ROC/SH/560(3)/2007/395—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that after expiry of 3 (three) months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register of Companies in accordance with and subject to the provisions of Sub-section (5) of 560 of the said Act.

Sl. No.	Registration Number	Name of the Company	Registered in the State of
1	2	3	4
1.	02-003733	M/s. Mascot Trade and Agency Pvt. Ltd.	Assam
2.	02-003734	M/s. Saraighat Steels (Sales) Pvt. Ltd.	Assam
3.	02-003730	M/s. Maya Fabrics Pvt. Ltd.	Assam
4.	02-003732	M/s. Sai Weaving Pvt. Ltd.	Assam
5.	02-003719	M/s. Starlink Cable Network Pvt. Ltd.	Assam
6.	02-003729	M/s. Sudarshan Weaving Pvt. Ltd.	Assam
7.	02-003760	M/s. Eastern Zone Construction Pvt. Ltd.	Assam
8.	02-003777	M/s. Tirap Textile Pvt. Ltd.	Assam
9.	02-003775	M/s. Kopil Printers Pvt. Ltd.	Assam
10.	02-003758	M/s. Vikram Bhai Bikash Laboratories Pvt. Ltd.	Assam
11.	02-003793	M/s. Silvan Agro Acres Pvt. Ltd.	Assam
12.	02-003707	M/s. Jiri Cement Company Pvt. Ltd.	Assam

1	2	3	4
13.	02-003788	M/s. Ostrich Finance and Investment Pvt. Ltd.	Assam
14.	02-003798	M/s. Bright Stores and Enterprises Pvt. Ltd.	Assam
15.	13-003799	M/s. Naladong Limestone Company Pvt. Ltd.	Meghalaya
16.	02-003752	M/s. S M Rubber Products Pvt. Ltd.	Assam
17.	02-003779	M/s. Safety Travels Pvt. Ltd.	Assam
18.	02-003742	M/s. Doorking Entrade Pvt. Ltd.	Assam
19.	02-003728	M/s. Sakthi Fabrics Pvt. Ltd.	Assam

K. ANANDA RAO
Registrar of Companies
NE Region, Shillong

In the matter of Companies Act, 1956
and of following Companies

Cuttack-753 001, the 7th May 2007

No. ROC/Sec.560(5)/698—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-001438	M/s. Rossetto Fine Chemicals Pvt. Ltd.
2.	15-001452	M/s. Jagannath Machine Tools Pvt. Ltd.
3.	15-001455	M/s. Dusi Associates Pvt. Ltd.
4.	15-001457	M/s. Make All Machine Tool Pvt. Ltd.
5.	15-001463	M/s. R. R. Fasteners Pvt. Ltd.
6.	15-001483	M/s. Utkal Telelinks Ltd.
7.	15-001496	M/s. M. T. Construction Pvt. Ltd.
8.	15-001510	M/s. Exclusive Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
9.	15-001516	M/s. Golden Hoppers Pvt. Ltd.
10.	15-001517	M/s. Incotars Pvt. Ltd.
11.	15-001526	M/s. Allied Security Service Pvt. Ltd.
12.	15-001530	M/s. Banadurga Textiles Pvt. Ltd.
13.	15-001534	M/s. Das Chemicals Pvt. Ltd.
14.	15-001549	M/s. R. B. Mishra And Sons Pvt. Ltd.
15.	15-001555	M/s. Suprem Engineering and Industries Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
16.	15-001556	M/s. Harishankar Cement Industries Ltd.	48.	15-001723	M/s. Garuda Leasing Pvt. Ltd.
17.	15-001558	M/s. Balajee Bricks Pvt. Ltd.	49.	15-001724	M/s. United Farmers Pvt. Ltd.
18.	15-001568	M/s. Utkal Desulphurisation Ltd.	50.	15-001733	M/s. Mahasweta Products Pvt. Ltd.
19.	15-001574	M/s. G. M. Cold Storage Pvt. Ltd.	51.	15-001734	M/s. Padma Polyfeb Industries Pvt. Ltd.
20.	15-001583	M/s. Mina Plastics & Lamination Pvt. Ltd.	52.	15-001740	M/s. Omun Trading Company Pvt. Ltd.
21.	15-001586	M/s. Utkal Security and Detective Services Pvt. Ltd.	53.	15-001745	M/s. Sri Jagannath Leasing Pvt. Ltd.
22.	15-001591	M/s. Swasti Cold Storage Pvt. Ltd.	54.	15-001748	M/s. Shakti Transformers Pvt. Ltd.
23.	15-001593	M/s. Paramount Exports Pvt. Ltd.	55.	15-001758	M/s. Orissa Bitumens Pvt. Ltd.
24.	15-001595	M/s. Konark Forgings Pvt. Ltd.	56.	15-001763	M/s. Ganapati Appliances Pvt. Ltd.
25.	15-001598	M/s. Purbasha Extruders Pvt. Ltd.	57.	15-001764	M/s. Vikrant Televisions (India) Pvt. Ltd.
26.	15-001600	M/s. Orissa Marine Expo Pvt. Ltd.	58.	15-001774	M/s. Tarini Cold Storage Pvt. Ltd.
27.	15-001615	M/s. Orissa Thermomin Pvt. Ltd.	59.	15-001778	M/s. Karuna Hospital Pvt. Ltd.
28.	15-001619	M/s. Dhauli Marketing Pvt. Ltd.	60.	15-001779	M/s. Kalinga Televisions Pvt. Ltd.
29.	15-001620	M/s. Rampal Engineers Pvt. Ltd.	61.	15-001782	M/s. Bikas Estate and Housing Co Pvt. Ltd.
30.	15-001630	M/s. Arunjiyoti Cold Storage Pvt. Ltd.	62.	15-001784	M/s. Himadri Metals Pvt. Ltd.
31.	15-001637	M/s. Kalinga Farmers Pvt. Ltd.	63.	15-001793	M/s. Ruby Marine Foods Pvt. Ltd.
32.	15-001638	M/s. Tippingtonn (India) Pvt. Ltd.	64.	15-001810	M/s. Mahabir Jagannath Constructions Pvt. Ltd.
33.	15-001640	M/s. NPDC Pvt. Ltd.	65.	15-001813	M/s. Shakti Plastic (India) Pvt. Ltd.
34.	15-001641	M/s. Classic Constructions Pvt. Ltd.	66.	15-001820	M/s. Chakadola Plasto Pvt. Ltd.
35.	15-001648	M/s. Utkal Agro Systems and Chemicals Pvt. Ltd.	67.	15-001828	M/s. Binapani Spindle Tape Manufacturing Co. Pvt. Ltd.
36.	15-001661	M/s. Jagannath Televisions Pvt. Ltd.	68.	15-001840	M/s. Agrawal Computer Centre Pvt. Ltd.
37.	15-001670	M/s. B. K. Palypack Industris Pvt. Ltd.	69.	15-001843	M/s. Dhiraj Briquetts Pvt. Ltd.
38.	15-001681	M/s. Shree Krishna Wire Industries Pvt. Ltd.	70.	15-001847	M/s. Eastern Crushnet Engineering Work Pvt. Ltd.
39.	15-001683	M/s. Orissa Rubber Pvt. Ltd.	71.	15-001854	M/s. Bunbehari Textiles Pvt. Ltd.
40.	15-001685	M/s. Narayani Plantations Pvt. Ltd.	72.	15-001856	M/s. Upcon Consultants Pvt. Ltd.
41.	15-001690	M/s. Minee Electronics Pvt. Ltd.	73.	15-001857	M/s. Amerita Chemicals Pvt. Ltd.
42.	15-001702	M/s. Konark Tiles Pvt. Ltd.	74.	15-001858	M/s. J. K. Construction Pvt. Ltd.
43.	15-001705	M/s. Jessica Paints & Allied Products Pvt. Ltd.	75.	15-001867	M/s. Garuda Roadways Pvt. Ltd.
44.	15-001708	M/s. DPS Orissa Pvt. Ltd.	76.	15-001878	M/s. Raghunath Salt and Chemicals Pvt. Ltd.
45.	15-001709	M/s. B S Magnetic Materials Pvt. Ltd.	77.	15-001882	M/s. Animal Biological Products Pvt. Ltd.
46.	15-001711	M/s. Paragon Laboratories Pvt. Ltd.	78.	15-001885	M/s. Mishra Textiles Pvt. Ltd.
47.	15-001715	M/s. Orient Meta Zinc Pvt. Ltd.			

1	2	3
79.	15-001888	M/s. Mayur Venner Pvt. Ltd.
80.	15-001900	M/s. Khapka Hard-Coke Industries Pvt. Ltd.
81.	15-001919	M/s. Mayurbhanj Aromatics Pvt. Ltd.
82.	15-001928	M/s. Sugam Poultry Pvt. Ltd.
83.	15-001932	M/s. Ciba Export Pvt. Ltd.
84.	15-001943	M/s. Konark Insulation Foams Pvt. Ltd.
85.	15-001951	M/s. Janata Hotel Pvt. Ltd.
86.	15-001953	M/s. Orissa Glazed Tiles Pvt. Ltd.
87.	15-001956	M/s. Sri Ganesh Solvents Pvt. Ltd.
88.	15-001970	M/s. H H Builders Pvt. Ltd.
89.	15-001977	M/s. A K Mohanty Aluminium Co. Pvt. Ltd.
90.	15-001983	M/s. Vidyasagar Gramin Finance Pvt. Ltd.
91.	15-001984	M/s. M R Polymer Pvt. Ltd.
92.	15-003073	M/s. Patitapaban Consumers Pvt. Ltd.
93.	15-004238	M/s. Sabat Automobiles Pvt. Ltd.
94.	15-005157	M/s. Sourv Green Land Ltd.
95.	15-006118	M/s. D. S. N. Builders & Developers Pvt. Ltd.

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s. Nikseem Finance Private Limited

Bangalore-34, the 25th April 2007

No. ROCB/560(3)/16468/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that on the expiry of three months from the date hereof, the name of the company M/s. Nikseem Finance Private Limited unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of Companies Act 1956
and of following Companies

Bangalore-34, the 7th May 2007

No. TA/UK/SES/560(3)/L7/2007.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956, that on the expiry of three months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	18093	M/s. EMS Sales and Services Private Limited
2.	19466	M/s. Sai Vin Properties Private Limited
3.	19997	M/s. Sharavi Computer Solutions (India) Private Limited
4.	22602	M/s. Meghadhutam Exports Private Limited
5.	18772	M/s. Stonline Exports Private Limited
6.	19524	M/s. Prosoft Technologies Private Limited
7.	19117	M/s. Mark Impex & Services India Private Limited
8.	19072	M/s. A.A. Beauty Polymers Private Limited
9.	18927	M/s. Sri Nidhi Sai Baba Chits Private Limited
10.	18723	M/s. Jain Health Care Private Limited
11.	20582	M/s. Arafath Leather Tanning Private Limited
12.	14006	M/s. Petro Gran Limited
13.	23369	M/s. IRS Bindery Private Limited
14.	14671	M/s. Mewar Enterprise Limited
15.	20637	M/s. Venugram Cold Storage Private Limited
16.	14305	M/s. Electro Controls Switchgears Private Limited
17.	22914	M/s. Annex Technologies Private Limited
18.	18915	M/s. Malur Dairy Products Private Limited
19.	20949	M/s. Archana Technology Resource Park Limited
20.	19492	M/s. Hubly Eggs Poultry Farm Private Limited
21.	20451	M/s. Pooja Floriculture Limited
22.	18355	M/s. Bilgi Iron & Steel Private Limited
23.	14266	M/s. Temasek Consultants Private Limited
24.	14174	M/s. Computer Garage Institute of Technology Private Limited
25.	14173	M/s. Turbo Industrial Pumps Private Limited

1	2	3	1	2	3
26.	15437	M/s. Sanjeevani Teak and Plantations (India) Limited	56.	13340	M/s. Bangalore Projects Equipments Private Limited
27.	16185	M/s. Sree Vishnu Silks Private Limited	57.	14485	M/s. Fischer Batteries Private Limited
28.	20826	M/s. Shri Annapurneshwari Chits Private Limited	58.	15546	M/s. Homa Agro Foods Private Limited
29.	13993	M/s. Stona Marma Quartzite Private Limited	59.	15497	M/s. Subhalaxmi Freight Carrier Private Limited
30.	16707	M/s. Bulls Finance Limited	60.	17320	M/s. Sanka Enterprises Private Limited
31.	12717	M/s. Navya Finance and Investments Private Limited	61.	18008	M/s. Rao Ruk Agro Enterprises Private Limited
32.	16895	M/s. Wariman Investments & Finance Private Limited	62.	18433	M/s. Amrutesh Precision Components Private Limited
33.	12736	M/s. Bijapur Hotels Private Limited	63.	17023	M/s. Sri Sai Holiday Resorts Private Limited
34.	15135	M/s. Moda Leather Private Limited	64.	16531	M/s. Vasuprada Engineering Private Limited
35.	16879	M/s. Manipal Insurance Broking Company Limited	65.	18186	M/s. Varasiddi Vinayaka Agro Exports Private Limited
36.	17985	M/s. Bangalore Prime Properties Private Limited	66.	17892	M/s. Arrow Air Cargo Carriers Private Limited
37.	12824	M/s. Swathi Cultural Private Limited	67.	17881	M/s. Star Goodwill Investments & Properties Private Limited
38.	22172	M/s. Hamsa Marketing Private Limited	68.	13773	M/s. Premanjali Chit Funds Private Limited
39.	14040	M/s. Monolithic Home Finance Private Limited	69.	14066	M/s. Obie Fast Food Private Limited
40.	17916	M/s. Nextech Systems Private Limited	70.	23211	M/s. Wincom Publishers Private Limited
41.	15230	M/s. Computer Logic Services Private Limited	71.	13637	M/s. Prom System (Bangalore) Private Limited
42.	14096	M/s. Nagraj Bio Medicals Private Limited	72.	12324	M/s. Hotline Communications Private Limited
43.	17483	M/s. Krishnachaitanya Chits & Investments Private Limited	73.	18964	M/s. Tectona Teak Invest Private Limited
44.	19520	M/s. QSI Management Consultants Private Limited	74.	20805	M/s. MBMM Exports Private Limited
45.	22995	M/s. Vallishiyee Marketing Private Limited	75.	14890	M/s. Radtronix Medical Systems Private Limited
46.	22549	M/s. Karpagam Caterers Private Limited	76.	18532	M/s. Dera Finstock Private Limited
47.	19276	M/s. OM Marketing Private Limited	77.	16695	M/s. ARC Dynamics India Private Limited
48.	19422	M/s. Quiniella Hospitalities Private Limited	78.	14836	M/s. Sri Saptagiri Credits & Investments Private Limited
49.	12934	M/s. Nandita Trading Private Limited	79.	18483	M/s. Shree Renuka Engineering Works Private Limited
50.	14445	M/s. Baron Hexa Private Limited	80.	13325	M/s. Mezan Steel & Alloys Private Limited
51.	15828	M/s. Magavi Builders Private Limited	81.	21441	M/s. Rotech Electronics Private Limited
52.	12010	M/s. Sri Harivayu Silks Private Limited	82.	21094	M/s. Richdale Farms & Resorts Private Limited
53.	18376	M/s. Gangotri Infin Limited	83.	14940	M/s. Grail Systems & Solutions Private Limited
54.	18375	M/s. Brindavan Projects Limited			
55.	18374	M/s. Chamundi Real Estates Limited			

1	2	3	1	2	3
84.	17835	M/s. Sri Rajarajendra Spintex Private Limited	104.	22584	M/s. Tarun Bharat (Publishers) Private Limited
85.	15738	M/s. Raghurama Oil Extracts Private Limited	105.	20840	M/s. Soubhagya Real Estates Private Limited
86.	14431	M/s. Ujwal Precious Stones Private Limited	106.	13118	M/s. Adspark Advertising Private Limited
87.	12727	M/s. Mamta Electronics Private Limited	107.	17046	M/s. Rajgir Pharmaceuticals Private Limited
88.	14641	M/s. Esskayess Housing Limited	108.	12241	M/s. High Land Mines & Minerals Private Limited
89.	12585	M/s. Mega Craft Private Limited	109.	12577	M/s. Vinrich Finance Limited
90.	13312	M/s. Mandya Agro Waste Products Private Limited	110.	21396	M/s. Natraj Builders and Developers Private Limited
91.	18945	M/s. Megha Malhar Air Travels Private Limited	111.	23589	M/s. Deva Computers Private Limited
92.	15051	M/s. Biradar Rice Mills Private Limited	112.	13909	M/s. Sterling Leathers Private Limited
93.	20884	M/s. Spectrum Homes Private Limited	113.	22585	M/s. Tarun Bharat Finance Private Limited
94.	18430	M/s. S&S Buildtech Private Limited	114.	13159	M/s. P. K. Leasing (India) Private Limited
95.	21374	M/s. Tech Metalique India Private Limited	115.	20118	M/s. Dvaitha Finance Private Limited
96.	19680	M/s. V. S. Natural Clothings Private Limited	116.	16444	M/s. Darcen Graphics & Designs Private Limited
97.	22131	M/s. Corporate Automation Solutions Private Limited	117.	13568	M/s. Teja Deepaka Pharmaceuticals Private Limited
98.	19866	M/s. Sesha Properties Private Limited	118.	13307	M/s. Reel Life Productions (India) Private Limited
99.	13012	M/s. Aveem Enterprises Private Limited	119.	23476	M/s. Millennium Management Consultants Private Limited
100.	16717	M/s. Ambica Realtors Private Limited	120.	23500	M/s. Pallavi Stereos Private Limited
101.	22903	M/s. Vrindavan Dairies Private Limited			
102.	23122	M/s. Mano Exports (India) Private Limited			
103.	21925	M/s. Miramar Trading and Consultancy Services Private Limited			

SANTOSH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka